

METAL COATINGS (INDIA) LTD.

Registered CCPL Management Systems
CCPL Management Systems
AM ISO 9001-7:055 FEBRUER P. CAMBANAY

Works II: 113, HSIIDC Indl. Estate, Sector - 59, Faridabad - 121 004, Mob.: 09999972371

12th February, 2022

To, **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street Mumbai- 400 001

Sub.: Newspaper Publication of Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2021

Ref.: Scrip Code - 531810; Scrip Id - METALCO

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject, please find attached herewith the copies of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2021 published by the Company by way of advertisement on Saturday, 12th February, 2022 in newspapers 'Financial Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi).

This is for your information and record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Metal Coatings (India) Limited

Ayati Gupta

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a

FINANCIAL EXPRESS



WONDER FIBROMATS LIMITED

Regd. Office: 45, Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi- 110020 CIN: L31900DL2009PLC195174, Website: www.wonderfibromats.com, Ph. No.: 011- 66058952

(Rupees in Lakhs)											
S.		Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended	Year ended						
No.	Particulars	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited						
2700		31-Dec-21	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Mar-21						
1	Total Income from Operations	10,759.21	25,190.54	8,149.06	30,553.44						
2	Net Profit for the period before tax (before exceptional and extraordinary items)	404.14	426.75	88.48	588.31						
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	404.14	426.75	88.48	588.31						
4	Net profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	306.67	320.94	69.01	454.45						
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	306.67	320.94	69.01	454.45						
6	Paid Up Equity Share Capital (Face value Rs. 10 each)	1,340.08	1,340.08	837.55	837.55						
7	Reserves(excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	571		55	3,871.17						
8	Earnings per share (face value of Rs. 10/- per share) (not annualised)										
	DATE OF THE PROPERTY OF THE PR	1,00,000,001,10	777777777777	1.0000000000000000000000000000000000000	5.45.55.50						

Notes:

Basic earnings per share (in rupees)

Diluted earnings per share (in rupees)

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Company's website (www.wonderfibromats.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com)

2.29

2.29

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on February 11, 2022. The Limited Review for the quarter and nine months ended 31 December, 2021, has been carried out by the Statutory Auditor, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015.
- Figures of the previous periods have been regrouped /rearranged, wherever necessary.

On behalf of the Board For Wonder Fibromats Limited

0.82

0.82

2.40

Particulars

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)]

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Paid up Debt Capital / Outstanding Debt

Earnings Per Share of (Rs.10/- Each)

Outstanding Redeemable Preference Shares*

(for continuing and discontinued operations)

*The Company has not issued any preference shares.

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L65993PN2009PLC134196

Registered Office: Mundhwa, Pune - 411 036 Tel: 91 20 66215000, Fax: 91 20 26821124 Website: www.kalyani-investment.com E-mail: investor@kalyani-investment.com

Quarter Ended

Sept 30

2021

Unaudited

186.07

179.70

179.70

124.11

43.65

28.43

(1,519.37)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

Dec 31,

2021

Unaudited

117.49

111.56

111.56

81.51

43.65

18.67

www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on Company's website at www.kalyani-investment.com.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No.CIR/CFD/FAC/62/2016

dated July 5, 2016. The full format of Quarterly / Yearly Financial Results is available on the websites of Stock Exchanges at

(2,609.02)

Total Income from Operations

Paid up Equity Share Capital

Securities Premium Account

Net worth

Debt Equity Ratio

Basic and Diluted:

14 Capital Redemption Reserve

16 Debt Service Coverage Ratio

www.adityamedisales.com

Date: February 11, 2022

Place: Mumbai

17 Interest Service Coverage Ratio

15 Debenture Redemption Reserve

Net Profit / (Loss) for the period

5.43

5.43

ADITYA MEDISALES LIMITED CIN: U24230GJ1990PLC014535

402, 4 th Floor, R.K. Centre, Fatehguni Main Road, Baroda - 390 002 Ph. No.: (91 22) 4218 1111 • Website: www.adityamedisales.com

For period ended 31" December 2021 S1" March 2021

3726.02

1,794.55

1,794.55

1.371.77

1.06,102.65

3,68,239.12

3,69,050.42

4,372.50

NA

0.39

16.91

16.91

1.18

1.17

(₹ in Million

Year Ended

March 31,

2021

Audited

126.04

92.92

92.92

77.95

43.65

17.86

25,927.88

44,893.63

5,000.00

811.30

(Audited)

18772.64

1,662.28

1,662.28

391.79

811.30

1,01,242.83

2,62,136.47

2,62,947.77

4,372.50

NA

0.62

4.83

4.83

1.12

1.11

5,000.00

Bhushan Mehta

Whole time Director

Statement of Unaudited Financial Results for quarter ended 31st December 2021 [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

NOTES: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

2. For the other line items referred Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Ltd and can be accessed on

the quarterly financial results is available on the websites of BSE Ltd and on www.adityamedisales.com

Standalone

Dec 31.

2020

Unaudited

19.79

12.73

12.73

11.39

43.65

2.61

5,238.54

Nine Months Ended

Dec 31.

2021

Unaudited

323.37

304.81

304.81

213.89

43.65

49.00

For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

AMIT B. KALYANI

CHAIRMAN

7,527.86

Dec 31.

Unaudited

67.76

47.81

47.81

41.88

43.65

9.59

19,368.83

Harsh Kumar Anand Place: New Delhi Chairman and Managing Director Date: 11/Feb/2022 (DIN: 00312438)

JMG CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 574, 2nd Floor, Main Road, Chirag Delhi, New Delhi-110017 Website: www.jmg-corp.in, E-mail: info@jmg-corp.in CIN: L31104DL1989PLC362504, Tel: (011) 41834411, 41834111

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter year ended 31st December, 2021

SI. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2021 [Unaudited]	Quarter ended 31.12.2020 [Unaudited]	Nine months ended 31.12.2021 [Unaudited]	Year ended 31.03.2021 [Audited]
1	Total Income from Operations (Refer Note 2 below)	33.65	209.31	224.06	602.71
2	Net Profit/(Loss) before Tax	(26.20)	(77.77)	(55.16)	(127.69)
3	Net Profit/(Loss) after Tax	(26.20)	(77.77)	(55.16)	(127.69)
4	Total Comprehensive Income	(26.20)	(77.77)	(55.16)	(129.69)
5	Paid-up equity share capital (face value of Rs.2.50/- each)	578.95	495.00	578.95	578.95
6	Earnings Per Share (of Rs. 2.50/- each) (not annualized)				
	a. Basic EPS (Rs.)	(0.113)	(0.393)	(0.238)	(0.560)
	b. Diluted EPS (Rs.)	(0.113)	(0.393)	(0.238)	(0.560)

Place: New Delhi

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Company's website www.jmg-corp.in and Stock Exchange website www.bseindia.com.
- Total income from operations represents revenue from operations only.

For and on behalf of the Board of Directors,

(Rs. in Lakh)

Atul Kumar Mishra Managing Director Date: 11th February, 2022 DIN: 00297681

	FOR THE QUARTER AND NINE MONTH	HS ENDED 31" DE	CEMBER, 2021	(Rs. in La
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2021 Unaudited	Nine months ended 31.12.2021 Unaudited	Quarter ender 31.12.2020 Unaudited
1	Total Income from Operations	15,301	45,914	20,514
2	Net Profit/ (Loss) for the period before tax	(9,605)	(16,530)	(8,268
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(6,704)	(7,928)	(4,897
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit' (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	(6,712)	(7,868)	(4,849
5	Reserves excluding Revaluation Reserves		- 33	3
6	Paid-up Equity Share Capital (face value Rs. 10 per share)	1,099	1,099	1,09
7	Basic & Diluted Earnings Per Share from Continuing Operation (face value of Rs.10/- each) (not annualized)	(61.03)	(72.17)	(44.58
	Basic & Diluted Earnings Per Share from Discontinued Operation (face value of Rs.10/- each) (not annualized)	0.03	0.36	0.0

INOX WIND ENERGY LIMITED

meeting held on 11* February, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the above

2. The above results are an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.iwel.co.in). 3. Information on Standalone Financial Results: (Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2021 Unaudited	Nine months ended 31.12.2021 Unaudited	Quarter ended 31.12.2020 Unaudited
1	Total income from operations	117	442	152
2	Net Profit/ (Loss) for the period before tax	(324)	9,407	272
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(298)	9,498	309
e: No	ida ° February, 2022		For Inox W	Board of Director ind Energy Limite Sd. eet Valentine Davi /hole-time Directo

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED CIN: L74899DL1994PLC063387 Registered office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019 Phone: 011-41808125, Website: www.mcil.net, Email: info@mcilindia.net EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2021

Quarter Ended Nine Months ended Quarter Ended Year ended **Particulars** 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2021 31.12.2021 (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Audited) 9731.31 3881.85 3118.82 9411.65 otal Income from Operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) 335.42 158.84 343.2 134.13 Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) 134.13 335.42 158.84 343.2 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) 101.98 251.56 116.52 256.74 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax) 99.99 245.59 113.48 Equity Share Capital (Rs. 10 each) 732.68 732.68 732.68 732.68 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance 2415.76 Sheet of previous year (Other Equity) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) - Rs. (Not annualised for the quarter/Nine Months) 1.39 3.43 1.59 3.50 - Diluted 1.39 3.43 1.59

* Other Equity excluding Revaluation Reserves as on 31st March, 2021 was Rs. 2415.76 lakhs.

- The results have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 11th February, 2022. The statutory auditors of the company have carried out a Limited Review of the Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also on the company's website at www.mcil.net.

> For and on behalf of the Board of Directors Pramod Khandelwal (Managing Director) DIN: 00124082

PROZONE INTU PROPERTIES LIMITED

CIN: L45200MH2007PLC174147 Regd. Off: 105/106, Ground Floor, Dream Square, Dalia Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri West, Mumbai- 400 053 Website: www.prozoneintu.com Ph: +91-22-68239000

Extract of Statement of Consolidated unaudited Financial Results for the guarter and nine months anded 31 December 2021

months ended 31 December 2021 (RS. II											
0.	STANSY HAROSOM NAV		Quarter Ende	d	Nine mon	Year Ended					
Sr. No	Particulars	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)				
1	Total Income from Operations (net)	2,648.75	3,029.44	1,455.90	6,388.76	1,793.48	4,486.36				
2	Profit / (loss) from ordinary activities before tax before share of profit of joint ventures	29.28	18.95	(984.89)	(969.49)	(4,470.98)	(4,224.64)				
3	Net profit / (loss) for the period / year	(0.80)	283.30	(984.60)	(651.55)	(4,499.90)	(4,171.69)				
4	Total comprehensive income / (loss) for the period / year	0.16	1,123.05	(705.38)	189.79	(4,829.26)	(4,149.97)				
5	Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- per share)	3,052.06	3,052.06	3,052.06	3,052.06	3,052.06	3,052.06				
6	Other Equity	3	8 40 %	E 105	17 18	8 1/1 8	45,013.21				
7	Earnings Per Share										
	a. Basic:	(0.09) *	0.08 *	(0.43) *	(0.34)	(1.76)	(1.81)				
	b. Diluted:	(0.09) *	0.08 *	(0.43) *	(0.34)	(1.76)	(1.81)				

(Not annualised) Notes: 1 Standalone information:

Place: New Delhi Dated: 11th February, 2022

ir.	VID OBJECTION OF THE CONTROL OF THE		Quarter Ende	d	Nine mont	hs ended	Year Ended	
	Particulars	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
	Income from Operations	237.50	220.58	212.80	703.17	468.22	749.63	
1	Profit from ordinary activities before tax	191.09	165.67	122.56	472.21	194.15	313.16	
П	Net Profit for the period / year end	143.26	117.00	85.89	351.15	133.84	37.46	
	Total comprehensive income / (loss) for the period / year end	143.49	1,943.84	365.92	2,178.77	-16,449.54	-27,502.23	
	Earnings per share (Rs.) (Basic / Diluted)	0.09*	0.08*	0.06"	0.23*	0.09*	0.02	

The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly results is available on the Company's website at www.prozoneintu.com and the Stock Exchange websites at www.bseindia.com For and on Behalf of the Board

Nikhil Chaturvedi

Managing Director

DIN: 00004983

(Rs. In Lakhs)

/Rs. In Lakhs

DUCON INFRATECHNOLOGIES LIMITED



CIN: L72900MH2009PLC191412

Date: 11 February 2022

Extract of Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021

Standalone

Place: Mumbai

Ducon House, Plot No. A/4, Road No. 1, MIDC, Wagle Industrial Estate, Thane-400604.Tel: 022-41122115,E-mail: cs@duconinfra.co.in, Website: www.duconinfra.co.in

	4					,						
Particulars	Quarter ended December 31, 2021	Quarter ended September 30, 2021	Quarter ended December 31, 2020	NineMonths ended December 31,2021	NineMonths ended December 31,2020	Year ended March 31,2021	Quarter ended December 31, 2021	Quarter ended September 30, 2021	Quarter ended December 31, 2020	NineMonths ended December 31,2021	NineMonths ended December 31,2020	Year ended March 31,2021
11. Total Income from Operations	3,017.93	2,807.77	10,208.92	6,340.32	24,198.22	34,249.70	9,803.17	9,625.02	10,208.92	28,837.56	24,198.22	34,249.70
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	150.14	29.50	104.21	(78.21)	128.16	53.72	246.49	156.65	104.21	414.37	128.16	53.72
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax	3			8 (1)			3	į į	8 8	9	8	
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	150.14	29.50	104,21	(78.21)	128.16	53.72	246.49	156.65	104.21	414.37	128.16	53,72
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	151.10	31.41	78.15	(75.33)	101.02	41.55	214.69	141.22	78.15	275.88	101.02	41.55
 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 									-			
and Other Comprehensive Income (after tax)]	151.65	32.50	77.79	73.69	100.03	43.72	215.24	142.31	77.79	277.52	100.03	43.72
Equity Share Capital	2,056.75	1,766.75	1,046.75	2,056.75	1,046.75	1,766.75	2,056.75	1,766.75	1,046.75	2,056.75	1,046.75	1,766.75
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)	9	1		3			ŝ :			9	8	
as shown in the Audited Balance							Ų.			100	100	2002000000
Sheet of the previous year						12,800.62						12,800.62
8. Earnings Per Share (of Re.1/- each)	9	1 8		3			§ ·		Š ž		- 8	
(for continuing and discontinued operations) -	7104500	5400400	2-100	os newson	1 1 1 WOODA	2001	200000	V	5 30gUco	2000000	775007	2400000000
1. Basic:	0.07	0.02	0.07	-0.03	0.10	0.02	0.09	80.0	0.07	0.12	0.10	0.02
2. Diluted:	0.07	0.02	0.07	-0.03	0.10	0.02	0.09	80.0	0.07	0.12	0.10	0.02

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2021 are available on the Companies's website www.duconinfra.co.in and on the Stock Exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com For Ducon Infratechnologies Ltd.

Place: Thane Date: February 10, 2022 for and on behalf of the Board of Directors Arun Govil Harish Shetty Executive Director & CFO Managing Director DIN:07144684 DIN: 01914619

IM+CAPITALS LIMITED

Regd. Office: 72, Ground Floor, World Trade Center, Babar Road, Connaught Place, New Delhi-110001 CIN: L74140DL1991PLC340407

E-mail: imcapitalscompliances@gmail.com, www.imcapitals.com

Standalone

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTH ENDED 31st DECEMBER'2021

> (Rs. in Lacs except in Earning Per Share) Consolidated

SI.	Particulars	Quarter Ended		Nine Month Ended		Quarte	r Ended	Nine Month Ended		
No.		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1.	Total income from operations	55.29	52.85	214.35	262.04	79.13	115.09	275.45	431.74	
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	24.22	22.87	99.98	139.37	42.54	84.43	131.55	186.82	
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	24.22	22.87	99.98	139.37	42.54	84.43	131.55	186.82	
4.	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income/ (Loss) (after tax)]	24.22	22.87	99.98	139.53	42.54	84.43	131.55	186.98	
5.	Equity Paidup Share Capital	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	
6.	Earnings Per Share (not annualized) :	-1 -2								
	Basic (₹)	0.69	0.65	2.86	3.98	1.22	2.41	3.76	5.34	
	Diluted (₹)	0.69	0.65	2.86	3.98	1.22	2.41	3.76	5.34	

- 1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11th February,
- 2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.imcapitals.com

For IM+CAPITALS LIMITED

Place: New Delhi Date: 11-February-2022

financialexp.epapr.in

Particulars

(before share of net profits of associate.

Total Comprehensive Income after tax

8 Earnings per share (of ₹ 10/- each) Basic & diluted (not annualised)

(comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))

Total Income from operations

Exceptional items, tax) 3 Profit for the period before tax

> (after exceptional item) Profit for the period after tax

2 Profit for the period

6 Equity Share Capital

Date : February 11, 2022

Place : Pune

Other Equity

Note:

KALYANI

No.

2022. The Statutory auditors have conducted a limited review of the above Financial Results.

By order of the Board

Sd/-VISHAL SINGHAL (Whole Time Director)

New Delhi



तापमान नोएडा

गाजियाबाद गुरुग्राम फरीदाबाद

मौसम

23.0 9.0 9.0

लड़की की बेरहमी से पिटाई, महिला आयोग ने लिया संज्ञान

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली ,11 फरवरी।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) ने पश्चिम विहार में एक लड़की की बेरहमी से पिटाई के वीडियो पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने शुक्रवार को पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में एफआईआर दर्ज करने और अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

दिल्ली के पश्चिम विहार में एक लडकी की बेरहमी से पिटाई के मामले में आरडब्लूए और इलाके के कुछ निवासियों ने आयोग से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उक्त आरोपी नशे का आदि है और उसने लडकी को बंदी बना कर रखा है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि आरोपी लडकी को कई बार बेरहमी से सबके सामने पीट चुका है और उस पर अत्याचार करता है। निवासियों ने आयोग को एक सीसीटीवी फुटेज भी प्रदान किया जिसमें स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को लड़की का पीछा करते और सार्वजनिक रूप से उसे बेरहमी से पीटते हुए देखाई दे रहा है।

गुरुग्राम इमारत हादसा : शुक्रवार को मिला एक और शव, विशेष जांच दल गठित

कंपनी और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 11 फरवरी।

गुरुग्राम में रिहायशी इमारत 'चिनटेल्स पाराडाइजो' के एक हिस्से के ढहने के मामले में पुलिस ने भवन निर्माता कंपनी और उसके ठेकेदार पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। जिला प्रशासन ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

इस इमारत के ढहे हिस्से के मलबे से शुक्रवार को एक और शव निकाला गया। गुरुवार की रात को हुए हादसे में दो लोग मरे हैं। इस हादसे को लेकर स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार को वहां प्रदर्शन किया, जबकि पुलिस ने आवासीय परिसर के द्वार सील कर दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एकता भारद्वाज की बीती रात मौत हो गई, जबिक सुनीता श्रीवास्तव का शव शुक्रवार को निकाला गया। घटनास्थल पर बचाव अभियान अभी चल रहा है। उन्होंने बताया कि सुनीता के पति अरुण कुमार श्रीवास्तव

परियोजना की संरचनात्मक जांच कराएगी चिनटेल्स इंडिया

गुरुग्राम में अपने आवासीय टावर के आंशिक रूप से ढहने के एक दिन बाद रियल इस्टेट कंपनी चिनटेल्स इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि वह दुर्भाग्यपुर्ण घटना पर स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। यह घटना हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-109 में 'चिनटेल्स पैराडिसो' परियोजना में हुई। चिनटेल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक प्रशांत सोलोमन ने एक ट्वीट में कहा, 'यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि हमारे निवासियों की

को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे इमारत मामला दर्ज किया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त के मलबे में फंस गए थे। उन्होंने बताया कि शिकायत पर बिल्डर और निर्माण ठेकेदार पर

नई दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा)। सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी चिंता है। प्रारंभिक जांच में हमें पता चला है कि दुर्घटना एक बाशिंदे द्वारा अपने अपार्टमेंट में ठेकेदार से मरम्मत कार्य कराने के दौरान हुई।' सोलोमन के अनुसार, कंपनी ने परियोजना के संबंध में शिकायतों के मद्देनजर पिछले साल एक संरचनात्मक आडिट कराया था। हम जल्द से जल्द दसरा संरचनात्मक आडिट शरू करेंगे। यदि संरचना में कोई दोष पाया जाता है तो हम प्रभावित खरीदारों को विधिवत मुआवजा देंगे या मरम्मत कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक व्यवस्था में प्रभावित निवासियों को समायोजित करेंगे।'

निशांत कुमार यादव ने कहा, 'विशेष जांच दल एकता भारद्वाज के पति राजेश भारद्वाज की गठित कर दिया गया है और वह लापरवाही के आरोपों की जांच करेगा। बचाव अभियान चल

रहा है।' अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-109 में चिनटेल्स पाराडाइजो आवासीय परिसर की छठी मंजिल पर स्थित एक अपार्टमेंट का पहले एक कमरा ढहा. जिसके बाद पहली मंजिल तक उस तरफ का हिस्सा ढहता चला गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। दमकल की गाड़ी को भी तैनात किया गया है। परिसर के डी-ब्लाक निवासी एकता भारद्वाज के पति राजेश भारद्वाज ने शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने शिकायत में कहा, 'मुझे अपने बेटे यथार्थ भारद्वाज का फोन आया कि हमारे टावर के कुछ अपार्टमेंट्स की छत ढह गई है। घटना में मेरी पत्नी को चोटें आईं और शाम करीब सात बजे उसकी मौत हो गई।' 'यह घटना चिनटेल्स समूह के एमडी अशोक सालोमान तथा ठेकेदार की लापरवाही और निचले दर्जे के निर्माण कार्य की वजह से हुई है। इसकी वजह से और भी लोगों की मौत हो सकती थी।

खबरों में शहर

जनसत्ता, नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2022 4

बवाना हादसा सरकार की लापरवाही: भाजपा जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 11 फरवरी।

बवाना में कमजोर सरकारी भवन ढह जाने से हुई 4 मौतों के लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। यह आरोप भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने लगाया। उन्होंने कहा है कि एक दशक पूर्व राजीव आवास योजना के अंतर्गत बवाना में ये भवन बनाये गए थे लेकिन अब तक गरीबों को आबंटित नहीं किए गए। इन मकानों को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया था, जिस वजह से इन भवनों में कोई भी घुस जाता था। इस वजह से यहां गेट खिड़की चोरी हुए और अब बाद में छतों में सरिया तक निकाला गया. जिससे भवन जर्जर हो गए। उन्होंने बताया कि आज भी कुछ गरीब परिवारों ने सर्दी से बचने के शरण ली हुई थी और भवन गिरने से उनकी मौत हो गई। भाजपा ने मांग की है कि इस दुर्घटना की पुलिस जांच कराई जाए और दोषी लोगों को सजा दी जाए।

हिजाब विवाद पर एसएफआइ का प्रदर्शन

नई दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा)।

कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) ने शुक्रवार को यहां कर्नाटक भवन के बाहर मुसलिम महिलाओं के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। एसएफआइ सचिव

याशिता सिंह ने कहा कि उन्हें कई अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विरोध के दौरान हिरासत में लिया गया था। सिंह ने कहा, 'हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया। कई अन्य लोगों को विरोध स्थल पर जाने के दौरान पकड लिया गया।'

उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ 'भेदभाव' के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कालेज में एक महिला छात्रावास के लिए निर्धारित जमीन पर गौशाला के निर्माण का भी विरोध कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रीय विरोध दिवस पर, हमने आज कर्नाटक भवन, दिल्ली के पास विरोध प्रदर्शन किया। नफरत

चुनाव आयोग ने शुरू किया 'चलो वोटर बने हम' जनसत्ता संवाददाता

फैलाने वालों के खिलाफ एकजुट हों।'

नई दिल्ली, 11 फरवरी।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा रणबीर सिंह ने शुक्रवार को नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता– मेरा वोट मेरा भविष्य– एक वोट की शक्ति में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा 'चलो वोटर बने हम' अभियान को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। इस विशेष प्रतियोगिता की थीम है– मेरा वोट मेरा

भविष्य– एक वोट की शक्ति है। इसमें पांच श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें गीत प्रतियोगिता, वीडियो बनाना, पोस्टर डिजाइन, स्लोगन लेखन आदि शामिल है। इसमें सभी नागरिक 22 भाषाओं में 15 मार्च 2022 जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य प्रतिभागियों को देश की चुनावी प्रक्रिया से परिचय कराना है ।

जनसत्ता संवाददाता

ग्रेटर नोएडा, ११ फरवरी।

बसपा नेता के बेटे

की हत्या, शव

जंगल में मिला

थाना सूरजपुर क्षेत्र के जुनपत

गांव के पास जंगल में शुक्रवार को एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की। मृतक की पहचान राहुल भाटी निवासी पल्ला

गांव ग्रेटर नोएडा के रूप में हुई है।

राहुल के सिर पर चोट के निशान

मिले हैं। पुलिस ने सिर पर भारी

वस्तु से हमला

कर युवक की

हत्या किए

आशंका जताई

जांच में पता

चला है कि

मृतक के पिता

हरगोविंद सिंह

भाटी बहुजन

समाज पार्टी

(बसपा) के

पुलिस ने शव

पोस्टमार्टम के

लिए भेजकर

जांच शुरू कर

दी है।

प्रलिस

की

उत्तरी निगम ने चुनावी साल का बजट किया पारित

आम जनता पर नए कर का कोई बोझ नहीं के हजार से कम मामले आए

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 फरवरी।

उत्तरी नगर निगम में महीने भर की लंबी चर्चा के बाद शुक्रवार को साल 2021-22 का संशोधित बजट अनुमान और साल 2022-23 के बजट अनुमानों को पारित किया गया। नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने बजट को अंतिम रूप दिया। बजट प्रस्ताव के मुताबिक इस बार किसी भी प्रकार की कोई कर वृद्धि नहीं की जाएगी।

आम माफी योजना तीन चरणों में लागू करने का फैसला किया है। पहले चरण में 15 फरवरी 2022 तक सभी संपत्ति करदाताओं को बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में सौ फीसद की छूट व मूल राशि पर 15 फीसद की छूट दी जाएगी। दूसरे चरण में 28 फरवरी 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 75 फीसद व जुर्माने में

बजट प्रस्ताव 2022 में निगम ने एक और

यह भी फैसले

कोरोना : ३३३ आक्सीजन सांद्रक की व्यवस्था *मरीजों* के लिए 190 वेंटिलेटर का इंतजामा हिंदूराव अस्पताल में आरटीपीसीआर प्रयोगशाला |*अस्पतालों* में 500 से अधिक आक्सीजन बिस्तर *अनधिकृत* कालोनियों में निगम फंड से विकास कार्य *निगम* स्कूल के विद्यार्थियों को मैथेमैटिकल किट *सहायक* शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था *निगम* के विभिन्न विभागों में डाटा एंटी आपरेटर्स को अनुबंध आधार पर नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी व अनुबंधित कर्मचारियों का बीमा,

100 फीसद की छूट दी जाएगी। तीसरे चरण में 31 मार्च 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 50 फीसद व जुर्माने में 100 फीसद की छट दी जाएगी।

करुणामूलक आधार पर नियुक्ति

इसके अलावा निगम ने लाल डोरा, जनसत्ता संवाददाता विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी और 544 अनधिकृत नियमित कालोनियों और अनधिकृत कालोनियों के साथ कश्मीरी प्रवासियों को आबंटित संपत्तियों को राहत देने के लिए एक नई माफी योजना शुरू की जो 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी।

नेता सदन ने बजट प्रस्ताव में कहा कि वर्ष 2017 से अब तक लगभग 975 सफाई कर्मचारियों को नियमितिकरण कर नियुक्ति-पत्र दिया जा चुका है। अब एफआर-17 को हटाते हुए सफाई कर्मचारियों को बकाया मिलेगा। साथ ही साल 1998 से 2006 तक के कच्चे सफाई कर्मचारी. 1996 से 1998 के लेफ्ट आउट सफाई कर्मचारी, साल 2010 तक करूणामूलक आधार पर लगे सफाई कर्मचारी और साल 2003 तक के सभी कच्चे सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए स्थायी समिति में प्रस्ताव लाया जाएगा।

दिल्ली में दिसंबर बाद कोरोना

नई दिल्ली, 11 फरवरी

दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। शुक्रवार को कोरोना के 977 नए मामले सामने आए जो 30 दिसंबर के बाद आए मामलों में सबसे कम हैं. जबकि संक्रमण से बीते 24 घंटों में 12 और लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकडों में कहा गया है कि राजधानी में संक्रमण दर घटकर 1.73 फीसद रह गई है।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा बलेटिन में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 18,49,596 हो गई है जबकि मृतकों की कुल संख्या 26,047 पर पहुंच गई है। अभी भी विभिन्न अस्पतालों में कुल 244 मरीज आक्सीजन के सहारे इलाज करा रहे हैं इनमें से 66 मरीजों की हालत गंभीर है।

आज से खुलेंगे रेस्तरां, जिम, सिनेमाहाल और तरणताल

जनसत्ता सवाददाता नोएडा. ११ फरवरी।

जनपद में कोरोना के सक्रिय मामले एक हजार से कम होने पर यहा कोविड सख्ती में राहत दी गई है। जिलाधिकारी सुहास एलवाइ ने 12 फरवरी से रेस्तरां, जिम, सिनेमा हाल, तरणताल और अन्य संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है। 36 दिन पहले जिलाधिकारी ने 5 जनवरी को जनपद में एक हजार केस होने पर ये पाबंदियां लगाई थी। प्रदेश में पाबंदियां लगाने वाला ये पहला जनपद था। बहराल, पाबंदियां हटने के बाद व्यापरियों ने राहत की सांस ली है।

कॉर्पोरेट कार्यालय : इंडियन बैंक **Indian Bank** 254-260, एवाई शानमुगम सलाई, रोयापेट्टा, चेन्नई 600014 ALLAHABAD 🚵 इलाहाबाद शाखा : सैम दिल्ली, 17, संसद मार्ग, प्रथम तल, नई दिल्ली-110001, दूरभाष नं. : 011-41099477, 41099462 परिशिष्ट-IV [प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डियन बैंक (पूर्व का इलाहाबाद बैंक) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार मैसर्स पुष्प प्रेम कंस्ट्रक्शन, इसके प्रोपराइटर श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री कमल सिंह गुप्ता, निवासी फ्लैट नं. 25ई, प्लॉट नं. 24-25, 3सरा तल, नरोत्तम कुंज, मधु नगर, ग्वालियर रोड, आगरा, हमारे बैंक के साथ सीसी खाता सं. 50314130840 से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 4,11,49,820.00 (रुपये चार करोड़ ग्यारह लाख उनचास हजार आठ सौ बीस मात्र) तथा 30.06.2019 से इसकी वसूली तक अप्रभारित ब्याज एवं अन्य व्ययों

कर्जदार/जमानती द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 9 फरवरी, 2022 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार⁄जमानती को तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार राशि रु. 4,11,49,820.00 (रुपये चार करोड़ ग्यारह लाख उनचास हजार आठ सौ बीस मात्र) तथा 30.06.2019 से इसकी वसूली तक अप्रभारित ब्याज एवं अन्य व्ययों के लिए इण्डियन बैंक (पूर्व का इलाहाबाद बैंक) के

का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना दिनांक 01.07.2019 जारी की थी।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/जमानती का ध्यान वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है

	कजदारा∕जमानातया के नाम	कब्जाकृत अचल सम्पात का विवरण	की तिथि		अनुसार बकाया राशि
प्रोता परं 2) ता 3) परं 3) परं 3) परं 3) परं 3) परं 3) परं 3) परं 4) परं 4) परं 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	तेट नंबर 25ई, प्लॉट नंबर 24-25, तीसरी मंजिल, नरोत्तम कुंज, यु नगर, आगरा (उ.प्र.) श्री हरिओम गुप्ता, पुत्र श्री कमल सिंह गुप्ता ग्राम बमरोली अहीर, जगंज, आगरा (उ.प्र.) श्रीमती पुष्पा गुप्ता, पत्नी श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता फ्लैट नंबर 25ई, ॉट नंबर 24 और 25 तीसरी मंजिल, नरोत्तम कुंज, मधु नगर, गरा (उ.प्र.) श्री संतोष गुप्ता पुत्र श्री हरिओम गुप्ता कान नंबर एचआईजी 30, ताज नगरी फेज-क, फतेहाबाद रोड, गरा (उ.प्र.) श्रीमती हेमलता गुप्ता पत्नी श्री दीपक गुप्ता कान संख्या 41/143/213/03 नई आबादी ढांडू पुरा रोड, नगला म, आगरा (उ.प्र.) श्री कृष्ण कांत गुप्ता, पुत्र श्री नारायण हरि कान नंबर 107, सिल्वर सिटी रोहता, ग्वालियर रोड, आगरा (उ.प्र.) श्री रविकांत गुप्ता, पुत्र श्री नारायण हरि कान नंबर 107, सिल्वर सिटी रोहता, ग्वालियर रोड, आगरा (उ.प्र.) श्री नितेश गुप्ता, पुत्र श्री नारायण हरि कान नंबर 107, सिल्वर सिटी रोहता, ग्वालियर रोड, आगरा (उ.प्र.)	1.आवासीय भूमि, प्लॉट नंबर-53, सेक्टर-बी, दीक्षा केसीआर टाउन, ग्वालियर रोड, मौजा-बमरोली अहीर, आगरा श्री हिरिओम गुप्ता, पुत्र कमल सिंह गुप्ता के नाम पर, माप 197.03 वर्ग मीटर 2. आवासीय भूमि, प्लॉट नंबर-09, सेक्टर-बी, दीक्षा केसीआर टाउन, ग्वालियर रोड, मौजा- बमरोली अहीर, आगरा श्री हिरिओम गुप्ता, पुत्र कमल सिंह गुप्ता के नाम पर माप 167.17 वर्ग मीटर 3. आवासीय भूमि, प्लॉट नंबर-83, सेक्टर-बी, दीक्षा केसीआर टाउन, ग्वालियर रोड, मौजा- बमरोली अहीर, आगरा। श्रीमती पुष्पा गुप्ता, पत्नी श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता के नाम पर, माप 116.12 वर्ग मीटर 4. आवासीय भूमि, प्लॉट नंबर-10, सेक्टर-बी, दीक्षा केसीआर टाउन, ग्वालियर रोड, मौजा- बमरोली अहीर, आगरा श्री संतोष गुप्ता, पुत्र श्री हिरिओम गुप्ता के नाम पर माप 167.17 वर्ग मीटर 5. आवासीय भूमि, प्लॉट नंबर-43 और 44, सेक्टर-बी, दीक्षा केसीआर टाउन, ग्वालियर रोड, मौजा- बमरोली अहीर, आगरा श्रीमती हेमलता गुप्ता, पत्नी श्री दीपक गुप्ता के नाम पर माप 337.76 वर्ग मीटर 6. आवासीय भूमि, प्लॉट नंबर-86,87 और 88, सेक्टर-बी, दीक्षा केसीआर टाउन, ग्वालियर रोड, मौजा- बमरोली अहीर, आगरा श्रीमती पुष्पा गुप्ता, पत्नी श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता के नाम पर माप 464.03 वर्ग मीटर 7. आवासीय भूमि, खसरा संख्या 187जी, 667 और 668, मौजा- बमरोली अहीर, सिरोली रोड, दीक्षा केसीआर टाउन के पास, आगरा में, एक डीड द्वारा श्रीमती पुष्पा गुप्ता, पत्नी श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता के नाम पर एक डोनेशन डीड, एक डोनेशन डीड के माध्यम से श्री कृष्ण कांत गुप्ता, श्री रिवकांत गुप्ता और श्री नितेश गुप्ता सभी पुत्र श्री नारायण हिर, माप 1029.36 वर्ग मीटर			रु. 4,11,49,820.00 (रुपये चार करोड़ ग्यारह लाख उनचास हजार आठ सौ बीस मात्र) तथा इसकी वसूली तक 30.06.2019 से अप्रभारित ब्याज एवं अन्य व्यय तथा बैंक द्वारा कृत व्यय
t	(नांक : 09.02.2022 स्थान : दिल्ली	अधिकृत प्राधिकारी, इ	णिडयन बैंक	(पूर्व का	इलाहाबाद बेंक)

घर में मिला भाजपा नेता का झुलसा हुआ शव

नोएडा, ११ फरवरी (भाषा)।

नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता की संदिग्ध

अंचल कार्यालयः दिल्ली, सामान्य सेवा प्रशासनिक अनुभाग, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली बैंक के वाहनों के विक्रय हेत सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:--क्रं.सं मात्रा (सं) के नाम से पंजीकृत Punjab National Bank विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट देखें www.pnbindia.in निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 02.03.2022, दोपहर 03.00 बजे तक किसी भी तरह का शुद्धिपत्र/परिशिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि अपबेटस के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट पर जाकर देखते रहें। मुख्य प्रबंधक, जीएडी, अंचल कार्यालयः दिल्ली

परिस्थितियों में झुलसने से मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। थाना रबूपुरा के प्रभारी राज कुमार ने बताया कि मिर्जापुर गांव के निवासी वीरेंद्र उर्फ पप्पन (44) बुधवार को परिवार के साथ अपनी बहन के यहां गए थे। बुधवार रात करीब 10 बजे घर लौट आए। रात को वह घर के ऊपर बने कमरे में जाकर सो गए। गुरुवार सुबह चुनाव के लिए मतदान के समय वीरेंद्र बूथ पर नहीं पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ता उनके घर गए, जिसके बाद वीरेंद्र की मौत की जानकारी मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि वीरेंद्र का शव झुलसा हुआ

था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कमार ने बताया कि मामले में परिजन की ओर से अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। वीरेंद्र की पत्नी उनसे अलग रह रही थीं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

Canara Bank

ग्रीन पार्क शाखा, 9 कम्यूनिटी सेन्टर, गुलमोहर एनक्लेव, नई दिल्ली-110049

सार्वजनिक सूचना आम जनता को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक की **ग्रीन पार्क शाखा** के साथ कई लॉकर लॉकर धारकों द्वारा खोले गए हैं और जिनके संबंध में लॉकर समझौते गायब हैं और साथ ही. लॉकर धारक पिछले लॉकर का संचालन नहीं कर रहे हैं। वर्षों की संख्या या लॉकर शब्य

के	के बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं।											
麻. 花.	लॉकर धारक का नाम	लॉकर नं.	पता	लॉकर प्रभारों के बकाया की तिथि	बकाया राशि (रु. में)							
1	रिपुजीत एस मारारी	481	एफ-15 ग्रीनपार्क मुख्य नई दिल्ली	1-अप्रैल-14	8,260							
2	राजा बाबू पंवार	474	बी-210 सदाल गंज बीकानेर राजस्थान	14-अप्रैल-22	9,588							
3	शीला राव	406	102, टॉप फ्लोर कैलाज हिल्स दिल्ली	1-अप्रैल-18	3,540							
4	पवन गोयल	71	3/304, आयुर विज्ञान नगर दिल्ली	17-अप्रैल-22	8,260							
5	बी आर मुखर्जी	69	एच-4 प्रेस 23 आई पी एक्सटेंशन पटपड़गंज नई दिल्ली	1-अप्रैल-18	9,588							
6	अनुराधा एम	96	248 गुलमोहर एन्क्लेव नई दिल्ली	1-अप्रैल-14	8,260							
7	जतिंदर सिंह थेथ	292	जे-65 गीतम नगर नई दिल्ली	1-अप्रैल-14	9,588							

कुछ मामलों में लॉकर धारक का स्वर्गवास होने का पता चला है। इस सूचना के द्वारा, एतदद्वारा सभी इच्छुक व्यक्तियों को यह अधिसूचित किय जाता है कि वे इस सूचना के 7 दिन की अवधि के भीतर संबंधित शाखोंओं में लॉकर के संबंध में पुष्ट प्रमाण जैसेकि पासपोर्ट, आधार कार्ड और नेवास का प्रमाण इत्यादि के साथ पधारें, लॉकर की बकाया राशि अदा करें तथा नया लॉकर एग्रीमेंट करें अथवा अपना सामान निकालें । यदि किसी लॉकर के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक लॉकर शुल्क के बकाया की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई के लिए विवश

स्थानः नई दिल्ली

इंडियन बैंक

तिथि: 11 फरवरी, 2022

स्थानः नई दिल्ली

मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC063387 पंजीकृत कार्यालयः 912, हेमकृन्ट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 Website: www.mcil.net, Email: info@mcilindia.net. Tel: 011-41808125

31.12.2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रु. लाखों में) 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021 (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) त्र से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) 158.84 134.13 335.42 कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद) 101.98 251.56 116.52 256.74 अवधि हेत कल व्यापक आय (अवधि हेत (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद 99,99 245.59 113.48 732.68 732.68 732.68 . आरक्षित (पर्व वर्ष के अंकेक्षित तलन पत्र में दर्शाई गई पनर्मल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) (अन्य इक्विटी 2415.76 आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (रु.) 1.39 3.43 1.59 3.50 * 31 मार्च, 2021 को पनर्मल्यांकन आरक्षितों को छोडकर अन्य इक्विटी रु. 2415.76 लाख थी।

) उपरोक्त परिणामों जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 11 फरवरी, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों ने 31 दिसम्बर 2021 को समाप्त तथा नौमाही परिणामों की सीमित समीक्षा की है। उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट

प्रमोट खण्डेलवाल

(www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.mcil.net) पर उपलब्ध हैं।

"परिशिष्ट-4-क" (नियम 8(6) का परंतुक देखें) ई-नीलामी Indian Bank जोनल कार्यालयः इंडियन बैंक अचल सम्पत्तियों की बिक्री बिक्री सूचना दक्षिणी दिल्ली के लिए बिक्री सूचना ALLAHABAD 🛕 इलाहाबाद वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतू ई-नीलामी बिक्री सूचना तदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि इंडियन बैंक, प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा (प्रलक्षित / भौतिक / सांकेतिक) 🛭 इंडियन ंक, संबंधित शाखा, प्रतिभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नलिखित कर्जदार / गारंटर / बंधकदाता से इंडियन बैंक, संबंधित शाखा, प्रतिभूत लेनदार, की नीचे वर्णित बकाया राशि एवं भावी ब्याज, प्रभार तथा नागतों इत्यादि की वसुली के लिए नीचे वर्णित तिथि को **"जैसी है जहाँ है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहाँ है"** आधार पर बेची जाएगी। प्रत्येक सम्पत्ति का सुरक्षित मुल्य तथा ईएमडी राशि नीचे वर्णित की गई है। ई—नीलामी विधि से बेक्री हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण यहां नीचे दिया गया है बोली वृद्धि राशि ई-नीलामी की शाखा का नाम तथा कर्जदार/गारंटर का नाम बकाया राशि नीलामी में रखी गई प्रतिभृति सुरक्षित मूल्य नोडल शाखा तिथि एवं समय खाता विवरण का विस्तृत विवरण कब्जा का प्रकार ईएमडी शाखाः लाजपतनगर-2 संपत्ति सं 382 ए, का वह सब हिस्सा जो खसरा सं इण्डियन बैंक 28.02.2022 रु. 83.25 लाख रु. 67.32 लाख रु. 0.25 कर्जदारः मै. एम. के. ट्रेडिंग कं. 541 / 197, खत्ता सं. 99, खेवत सं. 36, के 65 वर्ग गज पूर्वा. 11.00 बजे लाजपतनगर–2 रु. 6.75 लाख (लगभग) की भूमि पर निर्मित है, गाँव जोर बाग, कर्जदार पताः सं. ६८, भू—तल, केशोपुर सब्जीमण्डी खाता सं. भौतिक

आबादी क्षेत्र में जिसे त्रिनगर, दिल्ली—110035 के नाम (निकट विकासपुरी) नई दिल्ली-110018 और गारंटर श्री विजयपाल, 98741043635 सायं 5.00 बजे निवासी डब्ल्यजेड-159, तिहार गाँव, नई दिल्ली-110018 से जाना जाता है। IFSC: IDIB000L512 (भृतल पर दकान संख्या 1 और 2 को छोडकर) खाता सं: 50033051557,50172885018 ब्रोलीदाताओं को ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारे ई—नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) पर जाने की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नंबर 033—22901004 तथा सेवा प्रदाता के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए, कुपया ibapiop@mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें तथा ईएमडी स्थिति के लिए कुपया

सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ और नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया देखें : https://ibapi.in तथा इस पोर्टल के साथ संबंधित स्पष्टीकरणों के लिए, कृपया हेल्प लाइन नंबर 1800 1025026' तथा 011-41106131' पर सम्पर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी तिथिः 11–02–2022,

स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com